

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Regd. Off: L-7, Menz Floor, Greenpark Extension, New Delhi -110016

Ph No. 011-46067802 CIN: L65910DL1988PLC033799 GSTIN: 07AAACD0419K1ZX

Email ID: purshottaminvestofin@gmail.com

Website: www.purshottaminvestofin.in

BSE Limited
Deputy General Manager
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001.

Dear Sir,

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations')

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of notices given to shareholders informing them about the meeting of Board of Directors of the Company to be held on Friday, 12th February, 2021 published in the following newspapers on 02nd February, 2021:

1. Financial Express in English Language;
2. Jansatta in Hindi Language.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

For Purshottam Investofin Limited
For Purshottam Investofin Ltd

Ankit Gupta
Company Secretary

Dated: 02.02.2021

Swadeshi Polytext Limited
Regd. Office: New Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201001 (U.P.)
CIN: L25209UP1970PLC003320
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 9th February, 2021 to approve the un-audited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020.

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74899DL1989PLC035140
Regd. Off.: Kanchenjunga, 5th Floor, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel. No: 011-43745000
Web: www.dcmsr.com
E-mail: dsil@dcmsr.com
NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12.02.2021, inter-alia, to consider and approve unaudited standalone & consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31.12.2020 and to consider payment of interim dividend for the year 2020-21, if approved.

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED
CIN: L67120DL1993PLC052256
Regd. Off.: 103, Paloo House 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008
E-mail id: csvirtualeducation@gmail.com
Website: www.vgeli.co.in
Ph: 011-25702148
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 04th Meeting of the Board of Directors of the Company for the financial year 2020-2021 is scheduled to be held on Wednesday, February 10, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED
CIN: L67120DL1993PLC052256
Regd. Off.: 103, Paloo House 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008
E-mail id: csvirtualeducation@gmail.com
Website: www.vgeli.co.in
Ph: 011-25702148
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 04th Meeting of the Board of Directors of the Company for the financial year 2020-2021 is scheduled to be held on Wednesday, February 10, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

AUTO PINS (INDIA) LIMITED
Registered Office: 2776 Pyarelal Motor Market Kashmere Gate, Delhi-110006
CIN: L34300DL1975PLC070994
Web: http://www.autopinsindia.com
E-Mail: autopins@xsl.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021 at 4:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 2776, Pyarelal Motor Market, Kashmere Gate, Delhi-110006, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the third quarter ended 31st December, 2020.

KIRTI JAIN
COMPLIANCE OFFICER
FORM NO. INC-25
ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NORTHERN REGION
In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of the Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of M/s CHINTAN SECURITIES AND FINANCE LIMITED having its registered office at Office No. 510, GD ITL, Northex Towers A-9, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034.
Applicant,
Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 11th Day of January, 2021 to enable the company to give effect for such conversion.

ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) LIMITED
CIN: L92140MH1999PLC120516
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the Regulations 29, 33 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Entertainment Network (India) Limited will be convened on Wednesday, February 10, 2021, inter alia to consider, approve and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business matters. Aforesaid financial results will be available on the website of the Company www.enil.co.in at: https://www.enil.co.in/stock-exchange-filings-fy2021.php and at BSE Limited at: https://www.bseindia.com/corporates/Comp_Resultnew.aspx and at National Stock Exchange of India Limited at: https://www1.nseindia.com/corporates/corporateHome.html?id=equity For Entertainment Network (India) Limited Sd/- Mehul Shah SVP - Compliance & Company Secretary (FCS no- F5839) Mumbai, February 1, 2021 Registered Office: Entertainment Network (India) Limited, CIN: L92140MH1999PLC120516, Matulya Centre, 4th Floor, A-Wing, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai-13. Tel: 022 6753 6983. Fax: 022 6753 6800. E-mail: mekul.shah@timesgroup.com www.enil.co.in

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Ankit Gupta Company Secretary Date: 01.02.2021 Place: Delhi

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99599HR1992PLC026191
Regd. Office: R-205, MIDC, Rabale, Navi Mumbai, 400701
Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com
Website: www.pradeepmetals.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 5:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 31st December, 2020, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 along with the Limited Review Report 02620. In compliance with the provisions of the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and the Company's internal code of conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons, the trading window closed period has commenced from 13th December, 2020 and will open 48 hours after the Board Meeting. Information in this regard is also available on the website of the Company at www.pradeepmetals.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) LIMITED
CIN: L92140MH1999PLC120516
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the Regulations 29, 33 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Entertainment Network (India) Limited will be convened on Wednesday, February 10, 2021, inter alia to consider, approve and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business matters. Aforesaid financial results will be available on the website of the Company www.enil.co.in at: https://www.enil.co.in/stock-exchange-filings-fy2021.php and at BSE Limited at: https://www.bseindia.com/corporates/Comp_Resultnew.aspx and at National Stock Exchange of India Limited at: https://www1.nseindia.com/corporates/corporateHome.html?id=equity For Entertainment Network (India) Limited Sd/- Mehul Shah SVP - Compliance & Company Secretary (FCS no- F5839) Mumbai, February 1, 2021 Registered Office: Entertainment Network (India) Limited, CIN: L92140MH1999PLC120516, Matulya Centre, 4th Floor, A-Wing, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai-13. Tel: 022 6753 6983. Fax: 022 6753 6800. E-mail: mekul.shah@timesgroup.com www.enil.co.in

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99599HR1992PLC026191
Regd. Office: R-205, MIDC, Rabale, Navi Mumbai, 400701
Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com
Website: www.pradeepmetals.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 5:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 31st December, 2020, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 along with the Limited Review Report 02620. In compliance with the provisions of the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and the Company's internal code of conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons, the trading window closed period has commenced from 13th December, 2020 and will open 48 hours after the Board Meeting. Information in this regard is also available on the website of the Company at www.pradeepmetals.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99599HR1992PLC026191
Regd. Office: R-205, MIDC, Rabale, Navi Mumbai, 400701
Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com
Website: www.pradeepmetals.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 5:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 31st December, 2020, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 along with the Limited Review Report 02620. In compliance with the provisions of the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and the Company's internal code of conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons, the trading window closed period has commenced from 13th December, 2020 and will open 48 hours after the Board Meeting. Information in this regard is also available on the website of the Company at www.pradeepmetals.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

UJALA COMMERCIALS LIMITED
CIN: L93000DL1985PLC021397
Regd. Off.: A-6/3438, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063.
E-mail id: csujala.commercial@gmail.com, Website: www.ujalacom.in
Ph: 011-49879687
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company for Financial Year 2020-21 is scheduled to be held on Wednesday, February 10, 2021, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. This information may also be accessed under Investors Relations Section on the website of the Company and Stock Exchange i.e. www.ujalacom.in and www.mseil.in, respectively. For Ujala Commercials Limited Sd/- Poorti Goel Company Secretary Date: 01.02.2021

MEGANIRMAN AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: L70191DL1983PLC015425
Regd. Off.: A-6/3438, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063
E-mail: supersec@mnai.in@gmail.com, Website: www.mnai.in, Phone: 011-49879687
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, February 10, 2021 at 11:00 am at the registered office of the Company, inter-alia, to consider and approve the following matters: 1. To consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. 2. Appointment of Additional Director of the Company. 3. Any other matters with the permission of the Chair. The said Notice and the Financial results may be accessed under Investors Relations Section on the website of the Company and Stock Exchange i.e. www.mnai.in and www.bseindia.com, respectively. For Mega Nirman & Industries Limited Sd/- Ms. Kanika Company Secretary Date: 30.01.2021

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED
Regd. Off: D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041
CIN: L74899DL1993PLC056702
Contact No: +91-8989425575
E-mail: supersec@hsc.com@gmail.com, info_hindsec@hsc.com@yahoo.in
Website: www.supersecurities.in
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Friday, February 12, 2021 at 3:30 p.m. at the registered office of the company at D-16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi-110041 to consider, approve and take on record, inter-alia the unaudited financial results of the Company for the quarter ended on December 31, 2020. The information is also available on the company's website at www.supersecurities.in and on the recognized stock exchange www.bseindia.com. For Hind Securities & Credits Limited Sd/- Parul Chadha Company Secretary and Compliance Officer Date: 01.02.2021

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED
Regd. Off.: Vill. Bhandsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana
E-mail: compliance.kimia@gmail.com
Web: www.kimibiosciences.com
CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600, Fax: 011-47063601/02
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 11th day of February, 2021 at 2:00 p.m. at corporate office of the company viz. 974, 9th Floor, Aggarwal Millenium Tower-11, Netaji Subhash Place, New Delhi-110034, inter-alia, to consider, approve and take on record, amongst other subjects, the Un-Audited Financial Results (Standalone) for the third quarter ended December 31, 2020. In this connection, as per the Company's Code of Conduct for Insider Trading read with applicable provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the Equity Shares of the Company by Designated Persons has already been closed from January 01, 2021 up to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results (Standalone) to the Stock Exchange. The above information is also available on the website of the Company i.e. www.kimibiosciences.com and on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com. For Kimia Biosciences Limited Sd/- Sameer Goel Chairman & Managing Director (DIN: 00161786) New Delhi, February 01, 2021

THE PATNA ELECTRIC SUPPLY CO LTD
CIN: L40109WB1956PLC023307
Registered Office: 3, Kheta Das Lane, 1st Floor, Kolkata, West Bengal-700012
Phone: +91-33-40032108
E-mail: thepatnaelectricupply@gmail.com
Website: www.patnaelectricupplycompany.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Patna Electric Supply Co. Ltd. is scheduled to be held on Friday, February 12, 2021 at 2:00 p.m. at Registered Office of the Company at 3, Kheta Das Lane, 1st Floor, Kolkata-700012, to consider and approve, inter-alia, the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. Information in this regard is also available on the Company's website, on the Metropolitan Stock Exchange of India Limited's website and on the Calcutta Stock Exchange Limited's website, viz. www.patnaelectricupplycompany.com, www.mseil.in and www.sse-india.com. By Order of the Board For Patna Electric Supply Company Ltd Sd/- Vishal Kumar Sharma Managing Director DIN: 07310503 Place: Kolkata Date: February 1, 2021

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED
Regd. Off: L-7, Menz. Floor, Green Park Extension South Delhi - 110016
CIN: L65910DL1989PLC033799
Website: www.purshottaminvestofin.in
E-mail: purshottaminvestofin@gmail.com
Ph. No. 011-46067802
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of Purshottam Investofin Limited will be held on Friday, 12th February, 2021 at 04:00 P.M. at its Registered office inter-alia to consider & approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 and to consider any other item by permission of the Board. Further, in compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the shares of the company is closed from January 1, 2021 and would remain closed until 48 hours after the said financial results are declared to the stock exchange. The said notice may be accessed on the Company website at http://www.purshottaminvestofin.in/ and may also be accessed at stock exchange website at http://www.bseindia.com. For Purshottam Investofin Limited Sd/- Ankit Gupta Company Secretary Date: 01.02.2021 Place: Delhi

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99599HR1992PLC026191
Regd. Office: R-205, MIDC, Rabale, Navi Mumbai, 400701
Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com
Website: www.pradeepmetals.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 5:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 31st December, 2020, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 along with the Limited Review Report 02620. In compliance with the provisions of the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and the Company's internal code of conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons, the trading window closed period has commenced from 13th December, 2020 and will open 48 hours after the Board Meeting. Information in this regard is also available on the website of the Company at www.pradeepmetals.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99599HR1992PLC026191
Regd. Office: R-205, MIDC, Rabale, Navi Mumbai, 400701
Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com
Website: www.pradeepmetals.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 5:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 31st December, 2020, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 along with the Limited Review Report 02620. In compliance with the provisions of the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and the Company's internal code of conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons, the trading window closed period has commenced from 13th December, 2020 and will open 48 hours after the Board Meeting. Information in this regard is also available on the website of the Company at www.pradeepmetals.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Plot No 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71, 72, 73
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087
Sub: Intimation for Board Meeting to be held on Saturday, 13th February, 2021.
Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 13th February, 2021, at 4:00 P.M. at the Registered Office: Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 and other business, if any. In continuation to our letter dated December 31, 2020, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, shall remain closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) has been already closed from January 1, 2021 and will remain closed upto February 15, 2021 (both days inclusive). For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

PRADEEP METALS LIMITED
CIN: L99599HR1992PLC026191
Regd. Office: R-205, MIDC, Rabale, Navi Mumbai, 400701
Tel: 022-27691026 Fax: 022-27691123
Email: investors@pradeepmetals.com
Website: www.pradeepmetals.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021, at 5:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 31st December, 2020, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 along with the Limited Review Report 02620. In compliance with the provisions of the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, and the Company's internal code of conduct to regulate, monitor and report trading by Designated Persons, the trading window closed period has commenced from 13th December, 2020 and will open 48 hours after the Board Meeting. Information in this regard is also available on the website of the Company at www.pradeepmetals.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For Pradeep Metals Limited Sd/- Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

Modipon limited
CIN: L74999UP1965PLC003082
Regd. Office: Hapur Road,
Modinagar, Ghaziabad-201 204 (UP)

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: नई दिल्ली नगर, अटॉर्नीकाल केंद्र,
नयाँ दिल्ली-201001 (दिल्ली)

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DELHI 4TH FLOOR, JEWAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001.
JSL जिनदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड
CIN: L27205HR2013PLC049963

पंजीकृत कार्यालय: ओपी जिनदल मार्ग, हिसार - 125005 (हरियाणा)
फोन नं.: (01662) 222471-83, फैक्स नं.: (01662) 220499
Email id.: investor@care.jshl@jindalstainless.com,
Website: www.jshlstainless.com

पंजीकृत कार्यालय: ग्राम भोंडो, खारील सोडना,
गुडगाँव-122102, हरियाणा
ई-मेल: compliance.kimia@gmail.com
वेबसाइट: www.kimiabiocesciences.com

प्रथम आईएससी-26
शुभन डीलरकॉर्पोरेट लिमिटेड
सीआईएस: L74999HR2011PTC057300
[कम्पनी (निगम) निगम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत]

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.
CIN: L74999HR1985PLC019905
Regd. Office: 77-77, HSIDC Industrial Estate,
Hansi Road, Jind-126102 (Haryana)

उजाला कॉमर्शियल लिमिटेड
सीआईएस: L51909DL1985PLC021397
पंजीकृत कार्यालय: ए-6/343बी, प्रथम तल,
विद्यमान विहार, नई दिल्ली-110063

टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड
CIN: L74210HR1986PLC033018
पंजी. कार्या.: 74-75-76, फरीदाबाद, हरियाणा-121006
फोन: # 0129-4284300 फैक्स # 0129-4061541, वेबसाइट: www.talbrosexles.com, ई-मेल: cs@talbrosexles.com

FRUITION VENTURE LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC058824
Regd. Office: 21st, 3rd Floor Savitri Bhawan,
Commercial Complex Mukherjee Nagar,
New Delhi - 110009

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74899DL1989PLC035140
Regd. Office: Kanchanjunga, 5th Floor,
18, Barakhamba Road, New Delhi-110001

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड
सीआईएस: L74999DL1982PLC014411
पंजीकृत कार्यालय: 208, मैग्नेट हाउस-II,
कर्मपुरा कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110015

Table with 5 columns: क्रम सं., विवरण, समाप्त तिथि, समाप्त तिथि तक वर्ध/अवधि, पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 सहित. Contains 8 rows of financial data.

लेण्डमार्क प्रापर्टी डेवलपमेंट कम्पनी लि.
पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, नारायण मंडल,
23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12.02.2021, inter-alia, to consider and approve unaudited standalone & consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31.12.2020 and to consider payment of interim dividend for the year 2020-21, if approved.

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड
सीआईएस: L74999DL1982PLC014411
पंजीकृत कार्यालय: 208, मैग्नेट हाउस-II,
कर्मपुरा कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110015

उपरोक्त विवरण सेवों (सूचीकरण तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रकाश का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रकाश एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.talbrosexles.com पर उपलब्ध है।

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

For DCM Shriram Industries Ltd.
Y.D. Gupta
Company Secretary
FCS 3405

POST OFFER ADVERTISEMENT IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC EQUITY SHAREHOLDERS OF

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

वचुअल लोबल एजुकेशन लिमिटेड
सीआईएस: L67120DL1993PLC052256
पंजीकृत कार्यालय: 103, पार्क हाउस
2162, टी-10, नए खेत रोड,
नई दिल्ली-110008

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LIMITED
(hereinafter referred to as the "Target Company")
CIN: L74899DL1962PLC003634
Registered Office: Dohi Chambers, 4th Floor, 46, Nehru Place, New Delhi - 110 019

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

वचुअल लोबल एजुकेशन लिमिटेड
सीआईएस: L67120DL1993PLC052256
पंजीकृत कार्यालय: 103, पार्क हाउस
2162, टी-10, नए खेत रोड,
नई दिल्ली-110008

Open Offer to the public equity shareholders of Hindustan Everest Tools Limited for acquisition of 4,17,87,2 Equity Shares of Face Value ₹ 10/- each, representing 26.00% of total fully paid up equity share capital ("voting share capital") of Target Company for cash, at a price of ₹ 97/- (Rupees Ninety Seven only) per equity share by Algoquant Financials LLP ("Acquirer") along with Mr. Dhruv Gupta ("PAC1") and Mr. Devansh Gupta ("PAC2") (collectively referred to as "PACs") under SEBI (SAST) Regulations, 2011.

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

वचुअल लोबल एजुकेशन लिमिटेड
सीआईएस: L67120DL1993PLC052256
पंजीकृत कार्यालय: 103, पार्क हाउस
2162, टी-10, नए खेत रोड,
नई दिल्ली-110008

Table with 2 columns: Sr. No., Particulars. Lists details of the offer including offer price, aggregate number of shares, and details of the acquirer and PACs.

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

वचुअल लोबल एजुकेशन लिमिटेड
सीआईएस: L67120DL1993PLC052256
पंजीकृत कार्यालय: 103, पार्क हाउस
2162, टी-10, नए खेत रोड,
नई दिल्ली-110008

Table with 2 columns: Sr. No., Particulars. Lists details of the offer including offer price, aggregate number of shares, and details of the acquirer and PACs.

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

वचुअल लोबल एजुकेशन लिमिटेड
सीआईएस: L67120DL1993PLC052256
पंजीकृत कार्यालय: 103, पार्क हाउस
2162, टी-10, नए खेत रोड,
नई दिल्ली-110008

Table with 2 columns: Sr. No., Particulars. Lists details of the offer including offer price, aggregate number of shares, and details of the acquirer and PACs.

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

मेगा निगम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L70101DL1983PLC015425
पंजी. कार्या.: ए-6/343बी, प्रथम तल,
विद्यमान विहार, नई दिल्ली-110063

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PACS
KEYNOTE
Keynote Financial Services Limited
(formerly Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028

सिंगर इंडिया लिमिटेड
CIN: L52109DL1977PLC025405
पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:
ए-28/4, इंदौर रोड, मोहन कॉलोनी,
इंदौर-462001, मध्य प्रदेश

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एटलस रोड, सोनीपत-131001
सूचीकरण संख्या: SL13923HR1950PLC001614